



वाहन चोरों का गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे

- थाना जाजमऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- तीन अभियुक्तों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद
- उन्नाव से शहर आकर करते थे चोरी की घटनाएं
- एक के पास से 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस बरामद

जनपद उन्नाव से आकर शहर में वाहन चोरी की वारदातें करने वाले गैंग के तीन सदस्यों को थाना जाजमऊ पुलिस ने दबोच लिया। गैंग के पास से चोरी की छह मोटरसाइकिल व एक तमंचा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

चेकिंग में चढ़े हत्थे

थाना जाजमऊ पुरानी चुंगी रोड छबीलेपुरवा तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल को पकड़ लिया और पूछताछ में मोटर साइकिल का चोरी किया जाना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनके पास और भी मोटर साइकिल चोरी की है जो उनके द्वारा छिपा कर लोहा मैदान शिवगोदावरी क्षेत्र में छिपा कर रख दी गयी है। अतः 05 अन्य मोटर साइकिलों को चोरी की निशादेही पर बरामद किया गया। इसके साथ ही एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

06 मोटर साइकिल में से 01 मोटर साइकिल थाना क्षेत्र जाजमऊ से सम्बंधित व एक मोटर साइकिल थाना क्षेत्र चकरी से सम्बंधित पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना जाजमऊ व थाना चकरी में पंजीकृत हैं मुकदमें। अन्य चार चोरी की मोटर साइकिल के बारे में अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी की जा रही है।

शहर भर में करते थे वारदात

पूछताछ में चोरों द्वारा बताया गया कि वह उन्नाव से आकर शहर में घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को करते थे और उन्हें छिपा कर रख देते थे तथा राह चलते लोगों को अपनी मजरूरी का बहाना बता कर बेच देते हैं। अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों की पहचान

1. मो० आसिफ S/O अनवार हुसैन उर्फ कल्लू नि म०न० 115/347 इकलाक नगर पीपर खेडा थाना गंगा घाट जिला उन्नाव उम्र करीव 19 वर्ष
2. मो अरवाज S/O मो नसीम नि म०न० 422 मोतीनगर जाजमऊ थाना जाजमऊ- एक तमंचा नाजायज 315 बोर सम्बन्धित मु०अ०सं० 04/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3. रियाज S/O मो० आजाद नि० 325 इकलाख नगर पीपर खेडा थाना गंगाघाट जिला उन्नाव

बरादमगी करने वाली टीम

पवन कुमार थाना अध्यक्ष जाजमऊ, उ०नि० राज कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवगोदावरी, हे०का० टेमवीर, का० अतुल कुमार, का० पालेन्द्र सिंह, का० नवीन कुमार, का० धीरज कुमार, का० अर्जुन कुमार, का० अनिल कुमार शामिल रहे।